

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवाजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी 2010—माघ 8, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला ग्वालियर में दिनांक 18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

परिशिष्ट-अ

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना/कार्यालय	सेवा संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री पी. आर. उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर.	आयुक्त, भू-अभिलेख, म. प्र.	राज्य प्रशासनिक सेवा	जिला ग्वालियर
2	श्री सुरेश शर्मा, संयुक्त कलेक्टर.	आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर.	राज्य प्रशासनिक सेवा	जिला ग्वालियर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	श्री रामहेत माहोर, डिप्टी कलेक्टर, ग्वालियर.	आयुक्त, भू-अभिलेख, म. प्र.	राज्य प्रशासनिक सेवा	जिला ग्वालियर
4	श्रीमती नीतू सिंह, डिप्टी कलेक्टर.	कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, म. प्र.	राजस्व विभाग	जिला ग्वालियर
5	श्रीमती कुसुम छारी, डिप्टी कलेक्टर.	कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, म. प्र.	राजस्व विभाग	जिला ग्वालियर
6	श्री आर. के. श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर.	आयुक्त, भू-अभिलेख, म. प्र.	राज्य प्रशासनिक सेवा	जिला ग्वालियर
7	श्री आर. पी. शर्मा. डिप्टी कलेक्टर.	आयुक्त, भू-अभिलेख, म. प्र.	राज्य प्रशासनिक सेवा	जिला ग्वालियर
8	श्री के. सी. शर्मा, एस. एल. आर.	आयुक्त, भू-अभिलेख, म. प्र.	राजस्व विभाग	जिला ग्वालियर
9	श्री ओ. पी. श्रीवास्तव एस. एल. आर.	कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, म. प्र.	राजस्व विभाग	जिला ग्वालियर
10	श्री रूपेश उपाध्याय तहसीलदार	ग्वालियर विकास प्राधिकरण	राजस्व विभाग	जिला ग्वालियर
11	श्री मोहनलाल गुप्ता, एस. एल. आर.	कलेक्टर, कार्यालय ग्वालियर	राजस्व विभाग	जिला ग्वालियर
12	श्री अशोक चौहान, एस. एल. आर.	कलेक्टर, कार्यालय ग्वालियर	राजस्व विभाग	जिला ग्वालियर
13	श्री संजीव जैन एस. एल. आर.	संपदा अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधि.	राजस्व विभाग	जिला ग्वालियर
14	श्री अनिल बनवारिया एस. एल. आर.	कलेक्टर कार्यालय, ग्वालियर	राजस्व विभाग	जिला ग्वालियर
15	श्री प्रदीप तोमर एस. एल. आर.	कलेक्टर, कार्यालय ग्वालियर	राजस्व विभाग	जिला ग्वालियर
16	श्री सी. बी. प्रसाद एस. एल. आर.	कलेक्टर, कार्यालय ग्वालियर	राजस्व विभाग	जिला ग्वालियर
17	श्री विनोद सिंह एस. एल. आर.	आयुक्त, भू-अभिलेख, म. प्र.	राजस्व विभाग	जिला ग्वालियर